



Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय  
Government of India | भारत सरकार



# NCCT CO-OP NEWS BULLETIN

Date: 27.03.2024

Sr No	Date	Publication	Edition/Language	Page no.	Circulation
1.	24-03-2024	Exclusive News	Jaipur	Online	--
2.	24-03-2024	Trinity mirror	Tamilnadu/ English	5	18000
3.	27-03-2024	Estate Express	Indore	2	20000
4.	27-03-2024	Fine Times	Bhopal	5	70000
5.	27-03-2024	Samay Ki rah	Raipur	3	30000

Publication:	Exclusive News	Edition: Jaipur	Online
Published Date:	March 22, 2024		

<https://exclusivenews.co.in/govt-sets-target-to-increase-turnover-of-export-co-op-societies-to-rs-1-lakh-crore-amit-shah/>

### **Govt sets target to increase turnover of export co-op societies to Rs 1 lakh crore: Amit Shah**

The government has set a target to increase the turnover of export cooperative societies to up to Rs one lakh crore annually over the next five years, announced Cooperation Minister Amit Shah after inaugurating new office building of three multi-state cooperative societies.

Shah inaugurated the new office building of Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited (BBSL), National Cooperative Organics Limited (NCOL), and National Cooperative Export Limited (NCEL) in New Delhi on Wednesday.

Addressing the gathering, Shah said that the establishment of these three societies was done with a multifaceted objective, and when they become fully operational, solutions to many problems in the country will emerge.

He said, the society formed for exports will increase country's share in the global export of agricultural products, and resulting profit will be directly deposited into the bank accounts of farmers.

He said that the production of pulses can only increase when there is an efficient system for its export, and only then will farmers sow pulses.

Shah said that "we have arranged such a system so that at least 50 per cent of the profit goes directly into the farmer's bank account through Primary Agricultural Credit Societies (PACS)".

It is to be noted here National Council for Cooperative Training (NCCT), an autonomous society promoted by Ministry of Cooperation, is responsible for organizing cooperative training with focus on cooperative management and administration for the personnel working in the cooperative sector. They have conducted special awareness programmes for the PACS secretaries and Members to impart the benefits of three newly formed MSCS through their 20 Training units across the country.

Minister of Cooperation further said that the cooperative society established for seeds will work on the conservation and enhancement of original seeds.

The society established for organic products will keep a very small portion of these products for its operation and return the majority portion back to farmers at the level of cooperative dairies, ensuring good prices for these products.

Shah said that today, in many states including Gujarat, millions of farmers have adopted organic farming. He said that in organic farming model, farming on 21 acres of land with an indigenous cow is practiced, where production is not low, and soil fertility increases day by day.

He further said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, "we are moving ahead with the vision of 'Sahakar se Samridhi'".

Publication:	Trinity mirror, pg 5	Edition: Tamilnadu	Print
Published Date:	March 24, 2024		

**The news is about Tiruchengode Agricultural Producers Co-operative Marketing Society (TCMS), Namakkal which is Providing Wide Array of Services to Farmers**

## **Tiruchengode Coop empowers farmers**

Namakkal, Mar 24: The Tiruchengode Agricultural Producers Co-operative Marketing Society (TCMS) stands tall as a beacon in cooperative development, empowering farmers and revolutionizing agriculture through strategic branches, a strong membership base, and unwavering commitment to innovation and sustainability.

TCMS goes beyond just marketing premium agricultural commodities by distributing essential inputs, providing state-of-the-art storage facilities, and manufacturing a diverse range of products under the esteemed brand name "ARTHANA REESWARA."

Nestled at the sacred foothills of Lord Arthanareeswara, this society started in April 1930, is dedicated to

elevating farmers and agricultural members alike. With a vision to dismantle monopolies, eradicate middlemen, and foster fair competition along the production-sales continuum TCMS has emerged as a pioneering force.

The Society has a formidable force of 5,120 members and 99,329 associate members as of January 31, 2024.

Publication:	Estate Express, Pg 2	Edition: Indore	Print
Published Date:	March 27, 2024		

# सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मार्च में 3 प्रमुख पहल शुरू किए

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने मार्च में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस सहित तीन प्रमुख पहलों की शुरुआत की, जो देश में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने में काफी मदद करेगी।

जुलाई, 2021 में अपनी स्थापना के बाद से, सहकारिता मंत्रालय ने सहकार-से-समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने और देश में प्राथमिक से शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को मजबूत और गहरा करने के लिए कई पहल किए हैं।

शुरुआत से ही, मंत्रालय ने अंतराल को पाटने, सहकारी समितियों का विस्तार करने, टर्नओवर और मुनाफा बढ़ाने और उन्हें किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से गतिविधियों की पहचान की है।

8 मार्च को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का लोकार्पण और 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023-एक रिपोर्ट' का विमोचन किया। अब सहकारी क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी बस एक क्लिक पर उपलब्ध है। सहकारी क्षेत्र में विस्तार, विकास और वितरण सुनिश्चित करने के लिए डेटाबेस एक प्रमुख कदम है। यह कम्पास की तरह सहकारी क्षेत्र के विकास को दिशा देगा।

गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस महीने की शुरुआत में डेटाबेस लॉन्च करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय डेटाबेस देशभर में कहाँ सहकारी समितियाँ कम हैं, उस गैप की पहचान कर सहकारिता के विस्तार में मददगार साबित होगा। देश में 8 लाख से अधिक पंजीकृत समितियाँ हैं, जिनसे 30 करोड़ से अधिक नागरिक जुड़े हुए हैं।

13 मार्च को, मंत्री शाह ने नई दिल्ली में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया।

इन तीनों सहकारी समितियों की स्थापना इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई थी। अत्याधुनिक तकनीक के साथ, इन सोसायटियों का मुख्यालय 31,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले एक कार्यालय में शुरू हुआ। ये तीन समितियाँ किसानों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती हैं

महीने की शुरुआत में, शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन किया।

इस पहल का उद्देश्य भारत में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाना और मजबूत करना है, जिससे अंततः बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को लाभ होगा।

एनयूसीएफडीसी सहकारी बैंकों के लिए विशेष कार्य और सेवाएं सुनिश्चित करेगा, बैंकों और नियामकों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा।

अम्ब्रेला संगठन एनयूसीएफडीसी के गठन से देश में शहरी सहकारी बैंकों का विकास कई गुना बढ़ जाएगा। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि एनयूसीएफडीसी शहरी सहकारी बैंकों के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

Publication:	Fine Times, Pg 5	Edition: Bhopal	Print
Published Date:	March 27, 2024		

## सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मार्च में 3 प्रमुख पहल शुरू किए

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने मार्च में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस सहित तीन प्रमुख पहलों की शुरुआत की, जो देश में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने में काफी मदद करेगी।

जुलाई, 2021 में अपनी स्थापना के बाद से, सहकारिता मंत्रालय ने सहकार-से-समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने और देश में प्राथमिक से शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को मजबूत और गहरा करने के लिए कई पहल किए हैं।

शुरुआत से ही, मंत्रालय ने अंतराल को पाटने, सहकारी समितियों का विस्तार करने, टर्नओवर और मुनाफा बढ़ाने और उन्हें किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से गतिविधियों की पहचान की है। 8 मार्च को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का लोकार्पण और 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023-एक रिपोर्ट' का विमोचन किया। अब सहकारी क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी बस एक क्लिक पर उपलब्ध है। सहकारी क्षेत्र में विस्तार, विकास और वितरण सुनिश्चित करने के लिए डेटाबेस एक प्रमुख कदम है। यह कम्पास की तरह सहकारी क्षेत्र के विकास को दिशा देगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस महीने की शुरुआत में डेटाबेस लॉन्च करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय डेटाबेस देशभर में कहाँ सहकारी समितियां कम हैं, उस गैप की पहचान कर सहकारिता के विस्तार में मददगार साबित होगा। देश में 8 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां हैं, जिनसे 30 करोड़ से अधिक नागरिक

जुड़े हुए हैं। 13 मार्च को, मंत्री शाह ने नई दिल्ली में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (हृष्टहृष्ट) और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (हृष्टहृष्ट) के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया।

इन तीनों सहकारी समितियों की स्थापना इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई थी। अत्याधुनिक तकनीक के साथ, इन सोसायटियों का मुख्यालय 31,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले एक कार्यालय में शुरू हुआ।

ये तीन समितियाँ किसानों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती हैं महीने की शुरुआत में, शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्बेला संगठन, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य भारत में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाना और मजबूत करना है, जिससे अंततः बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को लाभ होगा। एनयूसीएफडीसी सहकारी बैंकों के लिए विशेष कार्य और सेवाएं सुनिश्चित करेगा, बैंकों और नियामकों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा। अम्बेला संगठन एनयूसीएफडीसी के गठन से देश में शहरी सहकारी बैंकों का विकास कई गुना बढ़ जाएगा। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि एनयूसीएफडीसी शहरी सहकारी बैंकों के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

Publication:	Samay Ki Rah, Pg 3	Edition: Raipur	Print
Published Date:	March 27, 2024		


## सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मार्च में 3 प्रमुख पहल शुरू किए

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने मार्च में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस सहित तीन प्रमुख पहलों की शुरुआत की, जो देश में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने में काफी मदद करेगी।

जुलाई, 2021 में अपनी स्थापना के बाद से, सहकारिता मंत्रालय ने सहकार-से-समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने और देश में प्राथमिक से शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को मजबूत और गहरा करने के लिए कई पहल किए हैं।

शुरुआत से ही, मंत्रालय ने अंतराल को पाटने, सहकारी समितियों का विस्तार करने, टर्नओवर और मुनाफा बढ़ाने और उन्हें किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से गतिविधियों की पहचान की है। 8 मार्च को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का लोकार्पण और 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023- एक रिपोर्ट' का विमोचन किया। अब सहकारी क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी बस एक क्लिक पर उपलब्ध है। सहकारी क्षेत्र में विस्तार, विकास और वितरण सुनिश्चित करने के लिए डेटाबेस एक प्रमुख कदम है। यह कम्पास की तरह सहकारी क्षेत्र के विकास को दिशा देगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस महीने की शुरुआत में डेटाबेस लॉन्च करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय डेटाबेस देश भर में कहाँ सहकारी समितियां कम हैं, उस गैप की पहचान कर सहकारिता के विस्तार में मददगार साबित होगा। देश में 8 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां हैं, जिनसे 30 करोड़ से अधिक नागरिक जुड़े हुए हैं। 13 मार्च को, मंत्री शाह ने नई दिल्ली में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (हृष्टहृष्ट) और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (हृष्टहृष्ट) के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इन तीनों सहकारी समितियों की स्थापना इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई थी। अत्याधुनिक तकनीक के साथ, इन सोसायटियों का मुख्यालय 31,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले एक कार्यालय में शुरू हुआ। ये तीन समितियाँ किसानों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती हैं महीने की शुरुआत में, शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन किया।

## LOCATIONS OF NCCT INSTITUTES



### NATIONAL COUNCIL FOR COOPERATIVE TRAINING

(AN AUTONOMOUS SOCIETY PROMOTED BY MINISTRY OF COOPERATION, GOVERNMENT OF INDIA)

3, Siri Institutional Area (3rd Floor), August Kranti Marg, New Delhi-110016

☎ 011-41096510

✉ secy-ncct@gov.in

🌐 www.ncct.ac.in